



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 155] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 20, 1974/पृष्ठ 30, 1896  
No. 155] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 20, 1974/JYAISTHA 30, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

### NOTIFICATION

#### CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 20th June 1974

G.S.R. 276(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts fertilisers of the description specified in column (2) of the Table below and falling under Item No. 14HH of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to the duty calculated on the value specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Description	Value per metric tonne
(1)	(2)	(3)
1.	Urea	Rupees six hundred and ten.
2.	Ammonium Sulphate	Rupees one hundred and ninety-five.
3.	Calcium Ammonium Nitrate	Rupees two hundred and ninety-five.

2. The exemption contained in this notification shall apply only to a manufacturer who, before clearing the fertiliser specified in column (2) of the Table, undertakes to credit the amount specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table into the Fertiliser Pool Equalisation Fund in accordance with the directions issued by the Central Government, and produces, within sixty days of the date of clearance of the said fertiliser, sufficient proof to the satisfaction of the proper officer that the amount has been so credited.

3. Nothing contained in this notification shall apply to any of the fertilisers specified in the said Table, which is imported into India.

[No. 108/74]

K. VISWANATHAN, Under Secy.

### वित्त मंत्रालय

### (राजस्व और बीमा विभाग)

### अधिसूचना

### केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 20 जून, 1974

सां.कां.वि. 276 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, एतद्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची के मद सं० 14जं के अधीन सम्मिलित तथा नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के उर्वरकों को, उन पर उद्ग्रहणीय उसने उत्पादन शुल्क से जो, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मूल्य पर संगणित शुल्क के समतुल्य हो, छूट देती है ।

### सारणी

क्रम सं०	वर्णन	प्रति मेट्रिक टन मूल्य
(1)	(2)	(3)
1.	यूरिया	छः सौ दस रुपये
2.	अमोनिया सल्फेट	एक सौ पञ्चानव रुपये
3.	कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट	दो सौ पञ्चानव रुपये

2. इस अधिसूचना में सम्मिलित छूट केवल उस विनिर्माता को लागू होगी जो, सारणी के स्तम्भ, (2) में विनिर्दिष्ट उर्वरक को साफ करने से पूर्व, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रकम उर्वरक पूल समानान्तरण निधि में जमा करने के लिए केन्द्रीय सरकार

द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार बचनबद्ध होता है तथा उक्त उर्वरक को साफ करने की तारीख में साठ दिन के भीतर उचित अधिकारी के समाधानप्रद रूप में इस बात का यथेष्ट प्रमाण प्रस्तुत करता है कि रकम उस प्रकार जमा कर बी गई है।

3. इस अधिसूचना की कोई बात उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट उर्वरकों में से ऐसे किसी उर्वरक को लागू नहीं होगी जो भारत में आयात की जाती है।

[108/74]

के० विजयनाथन, प्रवर सचिव।

